



तीन अंश, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2}\right) \div 6 =$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} =$$

$$\left(\frac{5}{2} + \frac{10}{3}\right) \div 5 =$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{2}\right) \div 2 =$$

$$\left(\frac{6}{5} - 2\right) \div 6 =$$

$$\left(\frac{16}{5} + \frac{16}{5}\right) \div 8 =$$

$$\frac{1}{5}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right) =$$

$$\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{1}{2} =$$

$$\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) =$$



तीन अंश, कोष्ठक के साथ संचालन का क्रम

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2}\right) \div 6 = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3}$$

$$\left(\frac{5}{2} + \frac{10}{3}\right) \div 5 = \frac{7}{6} = 1\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$$

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{2}\right) \div 2 = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$$

$$\left(\frac{6}{5} - 2\right) \div 6 = \left(-\frac{2}{15}\right)$$

$$\left(\frac{16}{5} + \frac{16}{5}\right) \div 8 = \frac{4}{5}$$

$$\frac{1}{5}\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{3}{50}\right)$$

$$\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{7}{60}$$

$$\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 0$$